



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खंड 4

PART II—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 11]

नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 21, 1978/अग्राहयण 30, 1900

No. 11]

NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 21, 1978/AGRAHAYANA 30, 1900

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

रक्षा मंत्रालय

नई दिल्ली, 21 दिसम्बर, 1978

का. नि. आ. 13-ई—केंद्रीय सरकार ने भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का. नि. आ. 39 (अ) तारीख 9 दिसम्बर, 1978 द्वारा यह घोषणा की थी कि दिल्ली छावनी के प्रशासन के लिये छावनी बोर्ड, दिल्ली के गठन में परिवर्तन करना वांछनीय था।

और केंद्रीय सरकार के, उक्त घोषणा पर गठित बोर्ड की पदावधि को भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना सं. का. नि. आ. 18(अ) तारीख 7 दिसम्बर 1977 द्वारा, 30 जून 1978 तक, जिसमें यह तारीख सम्मिलित है, बढ़ा दी थी।

और केंद्रीय सरकार ने उक्त घोषणा पर गठित बोर्ड की पदावधि को भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. नि. आ. 8(अ) तारीख 23 जून, 1978 द्वारा 31 दिसम्बर, 1978 तक, जिसमें यह तारीख सम्मिलित है, बढ़ा दी थी।

और केंद्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि दिल्ली छावनी के प्रशासन के लिये उक्त बोर्ड की पदावधि को छह मास तक और बढ़ाना वांछनीय है।

अतः अब केंद्रीय सरकार, छावनी अधिनियम 1924 (1924 का 2) की धारा 14 की उपधारा (4) के प्रथम परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त बोर्ड की पदावधि का 30 जून, 1979 तक जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, छह मास की और अवधि तक या उक्त अधिनियम की धारा 13 के अधीन बोर्ड के गठित होने तक, इसमें से जो भी पूर्वतर हो, विस्तार करती है।

[का. सं 29/13/सी/एल एण्ड सी/78/4085 सी (डी केन्स)]

बी. बी. सहाय, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF DEFENCE

New Delhi, the 21st December, 1978

S.R.O. 13-E—Whereas the Central Government, by the notification of the Government of India in the Ministry of Defence No. S.R.O. 39-E, dated the 9th September, 1976 had declared that for the administration of Delhi Cantonment, it was desirable to vary the constitution of the Cantonment Board, Delhi;

And whereas the Central Government, by the notification of the Government of India in the Ministry of Defence

No. S.R.O. 18-E dated the 7th September, 1977 had extended the term of office of the Board constituted upon the making of the said declaration up to and inclusive of the 30th June, 1978;

And whereas the Central Government, by the notification of the Government of India in the Ministry of Defence No. S.R.O. 8-E dated the 23rd June, 1978 had extended the term of office of the Board constituted upon the making of the said declaration up to and inclusive of 31st December, 1978;

And whereas the Central Government is satisfied that for the administration of the Delhi Cantonment, it is desirable

to extend the term of office of the said Board by a further period of six months.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by the first proviso to sub-section (4) of section 14 of the Cantonments Act, 1924 (2 of 1924), the Central Government hereby extends the term of office of the said Board by a further period of six months up to and inclusive of 30th June, 1979 or till a Board is constituted under section 13 of the said Act, whichever is earlier.

[File No. 29/13/C/L&C/76/4085-C/D (Cantts)]

B. B. SAHAY, Jt. Secy.